



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1360]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 29, 2005/पौष 8, 1927

No. 1360]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 29, 2005/PAUSA 8, 1927

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2005

का.आ. 1831(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का० आ० 637(अ) तारीख 4 सितम्बर, 1997 के साथ पठित औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय (राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण) के आदेश सं. का. आ. 936(अ) तारीख 19 अगस्त, 2004 का अधिक्रमण करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2 खंड 3, उपखंड(ii) में प्रकाशनार्थ, उक्त पैरा के प्रयोजन के लिये नीचे विनिर्दिष्ट पैकिंग सामग्री की लागत के मानकों को निर्धारित करती है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे :

(क) एल्यूमिनियम पत्ते में गोल गोलियां (0.03 मिमि तक)

गोलियों का औसत वजन

रुपये, प्रति दस

150 मिग्रा. तक

0.29

151-350 मिग्रा.

0.36

351-600 मिग्रा.

0.45

601-900 मिग्रा.

0.55

901-1200 मिग्रा.

0.65

नोट : उपर्युक्त मानकों में न्यूनतम रु. 0.14 प्रति पैक के आधार पर लागू होंगे।

(ख) एल्यूमिनियम पत्ते में कैपलेट और ऑबलांग गोलियां (0.03 मिमि तक)

गोलियों का औसत वजन

रुपये, प्रति दस

150 मिग्रा. तक

0.30

151-350 मिग्रा.

0.39

351-600 मिग्रा.

0.48

601-900 मिग्रा.

0.59

901-1200 मिग्रा.

0.70

नोट : उपर्युक्त मानकों में न्यूनतम रु. 0.16 प्रति पैक के आधार पर लागू होंगे।

(ग) एल्यूमिनियम पत्ते में गोल गोलियां (0.03 मिमि से ऊपर)

गोलियों का औसत वजन	रुपये, प्रति दस
150 मिग्रा. तक	0.37
151-350 मिग्रा.	0.47
351-600 मिग्रा.	0.58
601-900 मिग्रा.	0.72
901-1200 मिग्रा.	0.86

नोट : उपर्युक्त मानकों में न्यूनतम रु. 0.18 प्रति पैक के आधार पर लागू होंगे।

(घ) एल्यूमिनियम पत्ते में कैपलेट और ऑबलांग गोलियां (0.03 मिमि से ऊपर)

गोलियों का औसत वजन	रुपये, प्रति दस
150 मिग्रा. तक	0.40
151-350 मिग्रा.	0.50
351-600 मिग्रा.	0.63
601-900 मिग्रा.	0.78
901-1200 मिग्रा.	0.93

नोट : उपर्युक्त मानकों में न्यूनतम रु. 0.20 प्रति पैक के आधार पर लागू होंगे।

(ड.) पॉली ग्लासीन पत्ते में गोलियां

गोलियों का औसत वजन	रुपये, प्रति दस
150 मिग्रा. तक	0.20
151-350 मिग्रा.	0.25
351-600 मिग्रा.	0.31
601-900 मिग्रा.	0.38
901-1200 मिग्रा.	0.46

नोट : उपर्युक्त मानकों में न्यूनतम रु. 0.10 प्रति पैक के आधार पर लागू होंगे।

(च) एल्यूमिनियम पीवीसी ब्लिस्टर पत्ते में गोल गोलियां

गोलियों का औसत वजन	रुपये, प्रति दस
150 मिग्रा. तक	0.20
151-350 मिग्रा.	0.25
351-600 मिग्रा.	0.29
601-900 मिग्रा.	0.35
901-1200 मिग्रा.	0.41

नोट : उपर्युक्त मानकों में न्यूनतम रु. 0.10 प्रति पैक के आधार पर लागू होंगे।

(छ) एल्यूमिनियम पीवीसी ब्लिस्टर पत्ते में कैपलेट और ऑबलांग गोलियां

गोलियों का औसत वजन	रुपये, प्रति दस
150 मिग्रा. तक	0.21
151-350 मिग्रा.	0.25
351-600 मिग्रा.	0.30

601-900 मिग्रा.	0.35
901-1200 मिग्रा.	0.40
नोट : उपर्युक्त मानकों में न्यूनतम रु. 0.10 प्रति पैक के आधार पर लागू होंगे।	

(ज) एल्यू-एल्यू ब्लिस्टर पत्ते में गोल गोलियां

गोलियों का औसत वजन	रुपये, प्रति दस
150 मिग्रा. तक	0.53
151-350 मिग्रा.	0.62
351-600 मिग्रा.	0.73
601-900 मिग्रा.	0.87
901-1200 मिग्रा.	1.00

नोट : उपर्युक्त मानकों में न्यूनतम रु. 0.25 प्रति पैक के आधार पर लागू होंगे।

(झ) एल्यूमिनियम पीवीडीसी / पीवीसी फिल्म ब्लिस्टर पत्ते में गोल गोलियां

गोलियों का औसत वजन	रुपये, प्रति दस
150 मिग्रा. तक	0.32
151-350 मिग्रा.	0.39
351-600 मिग्रा.	0.48
601-900 मिग्रा.	0.59
901-1200 मिग्रा.	0.69

नोट : उपर्युक्त मानकों में न्यूनतम रु. 0.16 प्रति पैक के आधार पर लागू होंगे।

(ञ) एल्यूमिनियम पीवीडीसी लिपित पीवीसी फिल्म ब्लिस्टर पत्ते में कैपलेट और ऑबलांग गोलियां

गोलियों का औसत वजन	रुपये, प्रति दस
150 मिग्रा. तक	0.35
151-350 मिग्रा.	0.41
351-600 मिग्रा.	0.49
601-900 मिग्रा.	0.59
901-1200 मिग्रा.	0.69

नोट : उपर्युक्त मानकों में न्यूनतम रु. 0.17 प्रति पैक के आधार पर लागू होंगे।

(ट) एल्यूमिनियम पीवीडीसी लिपित पीवीसी ब्लिस्टर किट पत्ते में गोलियां और कैपसूल
गोलियों/कैपसूलों की संख्या/किट

	रुपये, प्रति किट
2 गोलियां/कैपसूल	0.17
3 गोलियां/कैपसूल	0.26
4 गोलियां/कैपसूल	0.35

(ठ) पॉली ग्लासीन-पीवीसी ब्लिस्टर पत्ते में गोलियां

गोलियों का औसत वजन

रुपये, प्रति दस

150 मिग्रा. तक

0.18

151-350 मिग्रा.

0.21

351-600 मिग्रा.

0.24

601-900 मिग्रा.

0.29

901-1200 मिग्रा.

0.34

नोट : उपर्युक्त मानकों में न्यूनतम रु. 0.08 प्रति पैक के आधार पर लागू होंगे।

(ड) एल्युमिनियम पत्ते में कैपसूल (03 मिमि तक)

कैपसूल माप

रुपये, प्रति दस

माप '2' और '3'

0.48

माप '1'

0.54

माप '0' और '00'

0.66

नोट : उपर्युक्त मानकों में न्यूनतम रु. 0.20 प्रति पैक के आधार पर लागू होंगे।

(ढ) एल्युमिनियम पत्ते में कैपसूल (0.03 मिमि से ऊपर)

कैपसूल माप

रुपये, प्रति दस

माप '2' और '3'

0.63

माप '1'

0.71

माप '0' और '00'

0.88

नोट : उपर्युक्त मानकों में न्यूनतम रु. 0.25 प्रति पैक के आधार पर लागू होंगे।

(ण) एल्युमिनियम-पीवीसी ब्लिस्टर पत्ते में कैपसूल

कैपसूल माप

रुपये, प्रति दस

माप '2' और '3'

0.29

माप '1'

0.32

माप '0' और '00'

0.39

नोट : उपर्युक्त मानकों में न्यूनतम रु. 0.11 प्रति पैक के आधार पर लागू होंगे।

(त) एल्युमिनियम-पीवीडीसी लिपित पीवीसी फिल्म ब्लिस्टर पत्ते में कैपसूल

कैपसूल माप

रुपये, प्रति दस

माप '2' और '3'

0.48

माप '1'

0.54

माप '0' और '00'

0.66

नोट : उपर्युक्त मानकों में न्यूनतम रु. 0.19 प्रति पैक के आधार पर लागू होंगे।

(थ) एल्यू-एल्यू ब्लिस्टर पत्ते में कैपसूल

कैपसूल माप

रुपये, प्रति दस

माप '2' और '3'

0.83

माप '1'

0.94

माप '0' और '00'

1.18

नोट : उपर्युक्त मानकों में न्यूनतम रु. 0.33 प्रति पैक के आधार पर लागू होंगे।

(द) बिना कार्टन के काँच की बोतलों में गोलियां और कैपसूल

(1) गोलियों का औसत वजन 150 मिग्रा. तक

गोलियों की संख्या

रुपये प्रति पैक

25 तक

1.51

26 - 30

1.53

31 - 50

1.61

51 - 75

1.72

76 - 100

1.78

नोट : 1. उपर्युक्त काँच की बोतल में प्रति पैक 100 गोलियों से ऊपर, रु. 1.78 + 0.0024 प्रति गोली के आधार पर लागू होंगे।

2. कार्टन की अतिरिक्त लागत मामलों के आधार पर विचार करके किये जायेंगे।

(2) गोलियों का औसत वजन 151 मिग्रा. से 350 मिग्रा. तक

गोलियों की संख्या	रुपये प्रति पैक
25 तक	1.54
26 - 30	1.57
31 - 50	1.68
51 - 75	1.78
76 - 100	1.89

31

नोट : 1. उपर्युक्त काँच की बोतल में प्रति पैक 100 गोलियों से ऊपर, रु.1.89+0.0044 प्रति गोली के आधार पर लागू होंगे।

2. कार्टन की अतिरिक्त लागत पर स्थिति के अनुसार विचार किया जायेगा।

(3) गोलियों का औसत वजन 351 मिग्रा. से 600 मिग्रा. तक

गोलियों की संख्या	रुपये प्रति पैक
25 तक	1.58
26 - 30	1.62
31 - 50	1.75
51 - 75	1.88
76 - 100	2.01

नोट : 1. उपर्युक्त काँच की बोतल में प्रति पैक 100 गोलियों से ऊपर, रु.2.01+0.0052 प्रति गोली के आधार पर लागू होंगे।

2. कार्टन की अतिरिक्त लागत पर स्थिति के अनुसार विचार किया जायेगा।

(4) गोलियों का औसत वजन 601 मिग्रा. से 900 मिग्रा. तक और कैपसूल का माप 1, 2 व 3

गोलियों/कैपसूलों की संख्या	रुपये प्रति पैक
25 तक	1.64
26 - 30	1.67
31 - 50	1.81
51 - 75	1.98
76 - 100	2.15

नोट : 1. उपर्युक्त काँच की बोतल में प्रति पैक 100 गोलियों/कैपसूलों से ऊपर, रु.2.15+0.0068 प्रति गोली/कैपसूल के आधार पर लागू होंगे।

2. कार्टन की अतिरिक्त लागत पर स्थिति के अनुसार विचार किया जायेगा।

(5) गोलियों का औसत वजन 901 मिग्रा. से 1200 मिग्रा. तक और कैपसूल का माप 0 व 00

गोलियों/कैपसूलों की संख्या	रुपये प्रति पैक
25 तक	1.68
26 - 30	1.72
31 - 50	1.88
51 - 75	2.08
76 - 100	2.29

नोट : 1. उपर्युक्त काँच की बोतल में प्रति पैक 100 गोलियों/कैपसूलों से ऊपर, रु.2.29+0.0084 प्रति गोली/कैपसूल के आधार पर लागू होंगे।

2. कार्टन की अतिरिक्त लागत पर स्थिति के अनुसार विचार किया जायेगा।

(घ) बिना कार्टन के प्लास्टिक की बोतलों में गोलियाँ और कैपसूल**(1) गोलियों का औसत वजन 150 मिग्रा. तक**

गोलियों की संख्या	रुपये प्रति पैक
25 तक	1.71
26 - 30	1.76
31 - 50	1.93
51 - 75	2.14
76 - 100	2.35

नोट : 1. उपर्युक्त काँच की बोतल में प्रति पैक 100 गोलियों से ऊपर, रु.2.35+0.0080 प्रति गोली के आधार पर लागू होंगे।

2. कार्टन की अतिरिक्त लागत पर स्थिति के अनुसार विचार किया जायेगा।

(2) गोलियों का औसत वजन 151 मिग्रा. से 350 मिग्रा. तक

गोलियों की संख्या	रुपये प्रति पैक
25 तक	1.78
26 - 30	1.84
31 - 50	2.06
51 - 75	2.35
76 - 100	2.50

नोट : 1. उपर्युक्त काँच की बोतल में प्रति पैक 100 गोलियों से ऊपर, रु.2.50+0.0080 प्रति गोली के आधार पर लागू होंगे।

2. कार्टन की अतिरिक्त लागत पर स्थिति के अनुसार विचार किया जायेगा।

(3) गोलियों का औसत वजन 351 मिग्रा. से 600 मिग्रा. तक

गोलियों की संख्या	रुपये प्रति पैक
25 तक	1.87
26 - 30	1.94
31 - 50	2.29
51 - 75	2.49
76 - 100	2.69

नोट : 1. उपर्युक्त काँच की बोतल में प्रति पैक 100 गोलियों से ऊपर, रु.2.69+0.0080 प्रति गोली के आधार पर लागू होंगे।

2. कार्टन की अतिरिक्त लागत पर स्थिति के अनुसार विचार किया जायेगा।

(4) गोलियों का औसत वजन 601 मिग्रा. से 900 मिग्रा. तक और कैपसूल का माप 1, 2 व 3

गोलियों/कैपसूलों की संख्या	रुपये प्रति पैक
25 तक	1.97
26 - 30	2.06
31 - 50	2.38
51 - 75	2.64
76 - 100	2.90

नोट : 1. उपर्युक्त काँच की बोतल में प्रति पैक 100 गोलियों/कैपसूलों से ऊपर, रु.2.90+0.0104 प्रति गोली/कैपसूल के आधार पर लागू होंगे।

2. कार्टन की अतिरिक्त लागत पर स्थिति के अनुसार विचार किया जायेगा।

(5) गोलियों का औसत वजन 901 मिग्रा. से 1200 मिग्रा. तक और कैपसूल का माप 0 व 00

गोलियों/कैपसूलों की संख्या	रुपये प्रति पैक
25 तक	2.07
26 - 30	2.18
31 - 50	2.49
51 - 75	2.81
76 - 100	3.12

नोट : 1. उपर्युक्त काँच की बोतल में प्रति पैक 100 गोलियों/कैपसूलों से ऊपर, रु.3.12+0.0124 प्रति गोली/कैपसूल के आधार पर लागू होंगे।

2. कार्टन की अतिरिक्त लागत पर स्थिति के अनुसार विचार किया जायेगा।

(न) काँच/प्लास्टिक की बोतलों में ऑरल ड्रॉप/लिविड/सस्पेंशन/सिरप/इलिविसर/ड्राई सिरप

(1) प्रत्येक काँच की बोतल में	रुपये प्रति पैक
10 मिलि तक	1.49
11 - 15 मिलि	1.53
16 - 20 मिलि	1.57
21 - 25 मिलि	1.61
26 - 30 मिलि	1.66
31 - 35 मिलि	1.69
36 - 50 मिलि	1.78
51 - 60 मिलि	1.85
61 - 100 मिलि	2.09
101 - 200 मिलि	2.71
201 - 250 मिलि	3.00
251 - 500 मिलि	4.52

(2) प्रत्येक प्लास्टिक की बोतल में	रुपये प्रति पैक
10 मिलि तक	1.85
11 - 30 मिलि	2.19
31 - 50 मिलि	2.58
51 - 60 मिलि	2.75
61 - 100 मिलि	3.15
101 - 200 मिलि	3.80

- नोट : 1 उपर्युक्त काँच की बोतल में 500 मिलि से ऊपर, प्रत्येक 5 मिलि के लिये रु.4.52+0.0304 और प्लास्टिक की बोतल में 200 मिलि से ऊपर, प्रत्येक 5 मिलि के लिये रु.3.80+0.0322 के आधार पर लागू होंगे।
- 2 नीचे दिये गये मद के लिये अतिरिक्त लागत पर विचार किये जायेंगे।
- (i) मापक कप - रु.0.25 प्रति पैक
- (ii) प्लास्टिक ड्रॉपर - रु.0.18 प्रति पैक, काँच ड्रॉपर- रु.0.54 प्रति पैक
- (iii) चौड़ी मुँह वाली बोतल बड़े कैप के साथ - 10% अतिरिक्त, सामान्य काँच की बोतल के, उक्त मानक लागू होंगे।
- (iv) कार्टन - रु.0.45 (30 मिलि तक), रु.0.60 (60 मिलि), रु.0.75 (100 मिलि), रु.1.25 (250 मिलि), रु.1.74 (400 मिलि) पैक और रु.1.90 (400 मिलि) पैक से ऊपर

(प) लेप और क्रीम (सामान्य और निर्जलीकृत)

(1) एल्युमिनियम ट्यूब (अनलेकर्ड) एवं जार में लेप व क्रीम

प्रत्येक एल्युमिनियम ट्यूब एवं जार में	रुपये प्रति पैक
5 ग्राम तक	1.17
10 ग्राम	1.35
15 ग्राम	1.46
20 ग्राम	1.63
25 ग्राम	1.81
30 ग्राम	1.98
35 ग्राम	2.25

नोट : 35 ग्राम से ऊपर एल्युमिनियम ट्यूब/जार पैक के लिये रु. 2.25+0.0360/ग्रा. के आधार पर लागू होंगे।

(2) एल्युमिनियम ट्यूब (लेकर्ड/लेटेक्स लाइड) में लेप व क्रीम

प्रत्येक एल्युमिनियम ट्यूब में	रुपये प्रति पैक
5 ग्राम तक	1.30
10 ग्राम	1.47
15 ग्राम	1.66
20 ग्राम	1.79
25 ग्राम	1.96
30 ग्राम	2.10
35 ग्राम	2.49

नोट : 35 ग्राम से ऊपर एल्युमिनियम ट्यूब/जार पैक के लिये रु. 2.49+0.0370/ग्रा. के आधार पर लागू होंगे।

(फ) पाउडर/लिविचड इन्जेक्शन और आँख/कान/नाक ड्रॉप वाइल में

(1) यू.एस.पी टाइप-I

वाइल माप	प्रत्येक पैक (रु०)	ब्लिस्टर की अतिरिक्त लागत (रु०)
2 मिलि तक	1.14	0.03
3 - 5 मिलि	1.34	0.06
6 - 10 मिलि	1.67	0.13
11 - 15 मिलि	1.92	0.19
16 - 20 मिलि	2.10	0.26
21 - 25 मिलि	2.28	0.31
26 - 30 मिलि	2.45	0.38
31 - 50 मिलि	3.15	0.63
50 मिलि से ऊपर	3.15+0.03 प्रत्येक मिलि पर	

(2) यू.एस.पी टाइप-II व III

वाइल माप	प्रत्येक पैक (रु०)	ब्लिस्टर की अतिरिक्त लागत (रु०)
2 मिलि तक	0.98	0.03
3 - 5 मिलि	1.10	0.06
6 - 10 मिलि	1.28	0.13
11 - 15 मिलि	1.39	0.19
16 - 20 मिलि	1.50	0.26
21 - 25 मिलि	1.61	0.31
26 - 30 मिलि	1.72	0.38
31 - 50 मिलि	2.17	0.63
50 मिलि से ऊपर	2.17+0.02 प्रत्येक मिलि पर	

(3) ट्यूबयूलर काँच वाइल

वाइल माप	प्रत्येक पैक (रु०)	ब्लिस्टर की अतिरिक्त लागत (रु०)
2 मिलि तक	1.31	0.03
3 - 5 मिलि	1.54	0.06
6 - 10 मिलि	1.92	0.13
11 - 15 मिलि	2.21	0.19
16 - 20 मिलि	2.41	0.26

नोट : 1 नीचे दिये गये मद के लिये अतिरिक्त लागत पर विचार किये जायेंगे।

- (i) ड्रॉपर - रु.0.24 प्रति पैक
- (ii) फलीप-ऑफ सील - रु.0.20 प्रति पैक
- (iii) ब्रूमो बूटायल रबड स्टोपर (लेटेक्स फ्री) - रु.0.50
- (iii) कोल्ड चैन/थर्मकोल पैकिंग - रु.1.78/वाइल
- (iv) कार्टन - रु.0.45 (30 मिलि तक), रु.0.60 (60 मिलि), रु.0.75 (100 मिलि) पैक

(ब) एम्पयूल में लिविचड इन्जेक्शन

(1) ट्रे में सफेद एम्पयूल

प्रत्येक एम्पयूल में	रुपये प्रति पैक
1 मिलि तक	0.44
2 मिलि	0.71
3 मिलि	0.91
4 मिलि	1.12
5 मिलि	1.30
6 - 10 मिलि	1.67
11 - 20 मिलि	1.90
21 - 25 मिलि	2.42

(2) ब्लिस्टर में सफेद एम्पयूल

प्रत्येक एम्पयूल में

रुपये प्रति पैक

1 मिलि तक	0.45
2 मिलि	0.73
3 मिलि	0.94
4 मिलि	1.15
5 मिलि	1.36
6 - 10 मिलि	1.75
11 - 20 मिलि	1.99
21 - 25 मिलि	2.53

(3) ट्रे में एम्बर एम्पयूल

प्रत्येक एम्पयूल में

रुपये प्रति पैक

1 मिलि तक	0.52
2 मिलि	0.74
3 मिलि	0.93
4 मिलि	1.13
5 मिलि	1.32
6 - 10 मिलि	1.99
11 - 20 मिलि	3.31
21 - 25 मिलि	3.79

(4) ब्लिस्टर में एम्बर एम्पयूल

प्रत्येक एम्पयूल में

रुपये प्रति पैक

1 मिलि तक	0.53
2 मिलि	0.76
3 मिलि	0.95
4 मिलि	1.16
5 मिलि	1.38
6 - 10 मिलि	2.08
11 - 20 मिलि	3.45
21 - 25 मिलि	3.96

(भ) थैलियों व पाऊचों में पाउडर और ग्रेन्यूल्स

(1) एल्यूमिनियम की थैली/पाऊच

द्यूब/पाऊच की मात्रा

रुपये प्रति पैक

5 ग्राम तक	0.45
5 ग्राम से ऊपर	0.45+0.03 /अतिरिक्त ग्रा.
5 ग्राम से ज्यादा (30 ग्राम के लिये 1.20)	

(2) एल्यूमिनियम को छोड़कर अन्य में थैली/पाऊच

द्यूब/पाऊच की मात्रा

रुपये प्रति पैक

5 ग्राम तक	0.38
5 ग्राम से ऊपर	0.38+0.02 /अतिरिक्त ग्रा.
5 ग्राम से ज्यादा (30 ग्राम के लिये 0.88)	

(म) दाँतों के कार्ट्रिज

माप

रुपये प्रति पैक

2 मिलि तक	1.40
-----------	------

(य) काँच की बोतलों, प्लास्टिक बोतलों और पाऊचों में पैक ट्रांसफ्यूजन सोलुशन	
माप	रुपये प्रति पैक
100 मिलि तक	4.95

(र) मीटर्ड डोज इन्हेलर्स	
माप	रुपये प्रति पैक
1. 10 मिग्रा. तक केन साइज मेटेलिक बॉल्व सहित	30.08
2. 10 मिग्रा. तक केन साइज नॉन-मेटेलिक बॉल्व सहित	24.02
3. 10 मिग्रा. से ऊपर केन साइज मेटेलिक बॉल्व सहित	31.49
4. 10 मिग्रा. से ऊपर केन साइज नॉन-मेटेलिक बॉल्व सहित	25.44

विशेष नोट : उक्त वर्णित मानकों के दायरे में नहीं आने वाले मद की अलग से स्थिति के अनुसार जाँच करके, उस पर विचार किया जायेगा।

[कां. सं./83/2005/वि/फा. सं. 8(10)/2005/डीपी/एनपीपीए-डीबी.-II]

ए. के. पाल, उप-निदेशक

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS
(National Pharmaceuticals Pricing Authority)
ORDER

New Delhi, the 29th December, 2005

S.O. 1831(E).—In pursuance of paragraph 7 of the Drugs (Prices Control) Order, 1995, read with No. S.O. 637(E) dated the 4th September, 1997 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority, in supersession of the order of the Government of India in the Ministry Chemicals and Fertilizers (National Pharmaceutical Pricing Authority) No. S.O. 936(E) dated 19th August, 2004, published in the Gazette of India, extraordinary, part II, Section – 3, sub-section (ii), hereby prescribes the norms as prescribed below for Packing Material Cost of materials for the purpose of the said paragraph, which shall come into force with immediate effect:-

A ROUND TABLETS PACKED IN ALUMINIUM STRIPS (upto 0.03mm)**Average weight of tablets****Rs. per 10's**

Upto 150 mg	0.29
151 - 350 mg	0.36
351 - 600 mg	0.45
601 - 900 mg	0.55
901-1200 mg	0.65

Note: The above norms shall be applicable subject to a minimum of Rs.0.14per pack

B CAPLET AND OBLONG TABLETS PACKED IN ALUMINIUM STRIPS (upto 0.03mm)**Average weight of tablets****Rs. per 10's**

Upto 150 mg	0.30
151 - 350 mg	0.39
351 - 600 mg	0.48
601 - 900 mg	0.59
901 - 1200 mg	0.70

Note: The above norms shall be applicable subject to a minimum of Rs.0.16per pack

C ROUND TABLETS PACKED IN ALUMINIUM STRIPS (above 0.03mm)**Average weight of tablets****Rs. per 10's**

Upto 150 mg	0.37
151 - 350 mg	0.47
351 - 600 mg	0.58
601 - 900 mg	0.72
901-1200 mg	0.86

Note: The above norms shall be applicable subject to a minimum of Rs.0.18 per pack

D CAPLET AND OBLONG TABLETS PACKED IN ALUMINIUM STRIPS (above 0.03mm)**Average weight of tablets****Rs. per 10's**

Upto 150 mg	0.40
151 - 350 mg	0.50
351 - 600 mg	0.63
601 - 900 mg	0.78
901-1200 mg	0.93

Note: The above norms shall be applicable subject to a minimum of Rs.0.20 per pack

E TABLETS PACKED IN POLY GLASSINE STRIP

Average weight of tablets	Rs. per 10's
Upto 150 mg	0.20
151 - 350 mg	0.25
351 - 600 mg	0.31
601 - 900 mg	0.38
901-1200 mg	0.46

Note: The above norms shall be applicable subject to a minimum of Rs.0.10 per pack

F ROUND TABLETS PACKED IN ALUMINIUM - PVC BLISTER

Average weight of tablets	Rs. per 10's
Upto 150 mg	0.20
151 - 350 mg	0.25
351 - 600 mg	0.29
601 - 900 mg	0.35
901-1200 mg	0.41

Note: The above norms shall be applicable subject to a minimum of Rs.0.10 per pack

G CAPLET AND OBLONG TABLETS PACKED IN ALUMINIUM - PVC BLISTER

Average weight of tablets	Rs. per 10's
Upto 150 mg	0.21
151 - 350 mg	0.25
351 - 600 mg	0.30
601 - 900 mg	0.35
901-1200 mg	0.40

Note: The above norms shall be applicable subject to a minimum of Rs.0.10 per pack

H ROUND TABLETS PACKED IN ALU - ALU BLISTER

Average weight of tablets	Rs. per 10's
Upto 150 mg	0.53
151 - 350 mg	0.62
351 - 600 mg	0.73
601 - 900 mg	0.87
901-1200 mg	1.00

Note: The above norms shall be applicable subject to a minimum of Rs.0.25 per pack

I ROUND TABLETS PACKED IN ALUMINIUM -PVDC COATED PVC FILM BLISTER

Average weight of tablets	Rs. per 10's
Upto 150 mg	0.32
151 - 350 mg	0.39
351 - 600 mg	0.48
601 - 900 mg	0.59
901-1200 mg	0.69

Note: The above norms shall be applicable subject to a minimum of Rs.0.16 per pack

J CAPLET / OBLONG TABLET PACKED IN ALUMINIUM -PVDC COATED PVC FILM BLISTER

Average weight of tablets	Rs. per 10's
Upto 150 mg	0.35
151 - 350 mg	0.41
351 - 600 mg	0.49
601 - 900 mg	0.59
901-1200 mg	0.69

Note: The above norms shall be applicable subject to a minimum of Rs.0.17 per pack

K	TABLETS AND CAPSULES IN KIT PACKING OF ALUMINIUM- PVDC COATED PVC BLISER	
	Number of tablets / Capsules per kit	Rs. per Kit
	2 tablets/capsules	0.17
	3 tablets/capsules	0.26
	4 tablets/capsules	0.35
L	TABLETS PACKED IN POLY GLASSINE - PVC BLISTER	
	Average weight of tablets	Rs. per 10's
	Upto 150 mg	0.18
	151 - 350 mg	0.21
	351 - 600 mg	0.24
	601 - 900 mg	0.29
	901-1200 mg	0.34
	Note: The above norms shall be applicable subject to a minimum of Rs.0.08 per pack	
M	CAPSULES PACKED IN ALUMINIUM STRIPS (upto 0.03mm)	
	Capsule Size	Rs. per 10's
	Size 2 & 3	0.48
	Size 1	0.54
	Size 0 & 00	0.66
	Note: The above norms shall be applicable subject to a minimum of Rs.0.20 per pack	
N	CAPSULES PACKED IN ALUMINIUM STRIPS (above 0.03mm)	
	Capsule Size	Rs. per 10's
	Size 2 & 3	0.63
	Size 1	0.71
	Size 0 & 00	0.88
	Note: The above norms shall be applicable subject to a minimum of Rs.0.25 per pack	
O	CAPSULES PACKED IN ALUMINIUM - PVC BLISTER	
	Capsule Size	Rs. per 10's
	Size 2 & 3	0.29
	Size 1	0.32
	Size 0 & 00	0.39
	Note: The above norms shall be applicable subject to a minimum of Rs.0.11 per pack	
P	CAPSULES PACKED IN ALUMINIUM - PVDC COATED PVC FILM BLISTER	
	Capsule Size	Rs. per 10's
	Size 2 & 3	0.48
	Size 1	0.54
	Size 0 & 00	0.66
	Note: The above norms shall be applicable subject to a minimum of Rs.0.19 per pack	
Q	CAPSULES PACKED IN ALU - ALU BLISTER	
	Capsule Size	Rs. per 10's
	Size 2 & 3	0.83
	Size 1	0.94
	Size 0 & 00	1.18
	Note: The above norms shall be applicable subject to a minimum of Rs.0.33 per pack	

R TABLETS AND CAPSULES PACKED IN GLASS BOTTLES WITHOUT CARTON

(1) Average weight of tablet upto 150 mg

Number of tablets	Rs. per pack
Upto 25	1.51
26-30	1.53
31-50	1.61
51-75	1.72
76-100	1.78

Note: (1) Rs 1.78+0.0024 / tablet shall be applicable for Glass Bottles of above 100 tablets.

(2) Additional cost of carton would be considered on case to case basis.

(2) Average weight of tablet 151 mg to 350 mg

Number of tablets	Rs. per pack
Upto 25	1.54
26-30	1.57
31-50	1.68
51-75	1.78
76-100	1.89

Note: (1) Rs 1.89+0.0044 / tablet shall be applicable for Glass Bottles of above 100 tablets.

(2) Additional cost of carton would be considered on case to case basis.

(3) Average weight of tablet 351 mg to 600 mg

Number of tablets	Rs. per pack
Upto 25	1.58
26-30	1.62
31-50	1.75
51-75	1.88
76-100	2.01

Note: (1) Rs 2.01+0.0052 / tablet shall be applicable for Glass Bottles of above 100 tablets.

(2) Additional cost of carton would be considered on case to case basis.

(4) Average weight of tablet 601 mg to 900 mg and capsule size - 1,2 & 3

Number of tablets / Capsules	Rs. per pack
Upto 25	1.64
26-30	1.67
31-50	1.81
51-75	1.98
76-100	2.15

Note: (1) Rs 2.15+0.0068 / tablet / capsule shall be applicable for Glass Bottles of above 100 tablets/capsules.

(2) Additional cost of carton would be considered on case to case basis.

(5) Average weight of tablet 901 mg to 1200 mg and capsule size - 0 & 00

Number of tablets / Capsules	Rs. per pack
Upto 25	1.68
26-30	1.72
31-50	1.88
51-75	2.08
76-100	2.29

Note: (1) Rs 2.29+0.0084 / tablet / capsule shall be applicable for Glass Bottles of above 100 tablets/capsules.

(2) Additional cost of carton would be considered on case to case basis.

S TABLETS AND CAPSULES PACKED IN PLASTIC BOTTLES WITHOUT CARTON**(1) Average weight of tablet upto 150 mg**

Number of tablets	Rs. per pack
Upto 25	1.71
26-30	1.76
31-50	1.93
51-75	2.14
76-100	2.35

Note: (1) Rs 2.35+0.0080 / tablet shall be applicable for Glass Bottles of above 100 tablets.

(2) Additional cost of carton would be considered on case to case basis.

(2) Average weight of tablet 151 mg to 350 mg

Number of tablets	Rs. per pack
Upto 25	1.78
26-30	1.84
31-50	2.06
51-75	2.35
76-100	2.50

Note: (1) Rs 2.50+0.0080 / tablet shall be applicable for Glass Bottles of above 100 tablets.

(2) Additional cost of carton would be considered on case to case basis.

(3) Average weight of tablet 351 mg to 600 mg

Number of tablets	Rs. per pack
Upto 25	1.87
26-30	1.94
31-50	2.29
51-75	2.49
76-100	2.69

Note: (1) Rs 2.69+0.0080 / tablet shall be applicable for Glass Bottles of above 100 tablets.

(2) Additional cost of carton would be considered on case to case basis.

(4) Average weight of tablet 601 mg to 900 mg and capsule size - 1, 2 & 3

Number of tablets / Capsules	Rs. per pack
Upto 25	1.97
26-30	2.06
31-50	2.38
51-75	2.64
76-100	2.90

Note: (1) Rs 2.90+0.0104 / tablet / capsule shall be applicable for Glass Bottles of above 100 tablets/capsules.

(2) Additional cost of carton would be considered on case to case basis.

(5) Average weight of tablet 901 mg to 1200 mg and capsule size - 0 & 00

Number of tablets / Capsules	Rs. per pack
Upto 25	2.07
26-30	2.18
31-50	2.49
51-75	2.81
76-100	3.12

Note: (1) Rs 3.12+0.0124 / tablet / capsule shall be applicable for Glass Bottles of above 100 tablets/capsules.

(2) Additional cost of carton would be considered on case to case basis.

T ORAL DROPS/ LIQUID / SUSPENSION /SYRUP/ ELIXIR/ DRY SYRUP IN GLASS /PLASTIC BOTTLE

(1) GLASS BOTTLE

Rs. per pack

Upto 10 ml	1.49
11- 15ml	1.53
16- 20ml	1.57
21- 25ml	1.61
26- 30ml	1.66
31- 35ml	1.69
36- 50ml	1.78
51 - 60 ml	1.85
61 - 100 ml	2.09
101 - 200 ml	2.71
201 - 250 ml	3.00
251 - 500 ml	4.52

(2) PLASTIC BOTTLE

Rs. per pack

Upto 10 ml	1.85
11- 30ml	2.19
31- 50 ml	2.58
51 - 60 ml	2.75
61 - 100 ml	3.15
101 - 200 ml	3.80

Note : (1) Rs 4.52+0.0304 for every 5 ml shall be applicable for Glass Bottles of above 500 ml and Rs. 3.80+0.0322 for every 5 ml shall be applicable for plastic bottle above 200 ml.

(2) Additional cost shall be considered for the item as under:

(i) Measuring Cup - Rs. 0.25 per pack

(ii) Plastic Dropper - Rs. 0.18 per pack, Glass Dropper - Rs. 0.54 per pack.

(iii) Wide Mouth Bottle with bigger Cap - 10% extra on the norms as applicable above for ordinary bottle

(iv) Cartons - Rs. 0.45 for upto 30 ml pack, Rs. 0.60 for 60 ml pack, Rs. 0.75 for 100 ml pack, Rs. 1.25 for 250 ml pack and 1.74 for 400 ml. Pack and Rs. 1.90 for above 400 ml pack..

U OINTMENT AND CREAM (ORDINARY AND STERILE)

(1) OINTMENT AND CREAM IN ALUMINIUM TUBES (UNLAQUERED) & JARS

Aluminium tubes and jars

Rs. per pack

Upto 5gm	1.17
10 gm	1.35
15 gm	1.46
20 gm	1.63
25 gm	1.81
30 gm	1.98
35 gm	2.25

Note: Rs 2.25+0.0360 /gm shall be applicable for Aluminum tube / jar packs above 35 gm.

(2) OINTMENT AND CREAM IN ALUMINIUM TUBE (LAQUERED / LATEX LINED)

Aluminium tubes

Rs. per pack

Upto 5gm	1.30
10 gm	1.47
15 gm	1.66
20 gm	1.79
25 gm	1.96
30 gm	2.10
35 gm	2.49

Note: Rs 2.49+0.0370 /gm shall be applicable for Aluminum tube / Jar packs above 35 gm.

V POWDER / LIQUID INJECTION AND EYE / EAR / NASAL DROPS IN VIALS

(1) USP TYPE - I

Size	Rs. per vial	Additional Cost for Blister(Rs.)
Upto 2 ml	1.14	0.03
3-5 ml	1.34	0.06
6- 10 ml	1.67	0.13
11 - 15 ml	1.92	0.19
16 - 20 ml	2.10	0.26
21 - 25 ml	2.28	0.31
26 -30 ml	2.45	0.38
31 -50 ml	3.15	0.63
above 50 ml	3.15+0.03 for every ml,	

(2) USP TYPE - II & III

Size	Rs. per vial	Additional Cost for Blister(Rs.)
Upto 2 ml	0.98	0.03
3-5 ml	1.10	0.06
6- 10 ml	1.28	0.13
11 - 15 ml	1.39	0.19
16 - 20 ml	1.50	0.26
21 - 25 ml	1.61	0.31
26 -30 ml	1.72	0.38
31 -50 ml	2.17	0.63
above 50 ml	2.17+0.02 for every ml,	

(3) TUBULER GLASS VIAL

Size	Rs. per vial	Additional Cost for Blister (Rs.)
Upto 2 ml	1.31	0.03
3 - 5 ml	1.54	0.06
6 - 10 ml	1.92	0.13
11 - 15 ml	2.21	0.19
16 - 20 ml	2.41	0.26

Note: Additional cost shall be considered for the item as under:

- (i) Dropper - Rs. 0.24 per pack
- (ii) FLIP-OFF SEAL - Rs. 0.20
- (iii) Brumo Butyl Rubber Stopper (Latex free) Rs. 0.50
- (iv) COLD CHAIN/ THERMOCOL packing - Rs. 1.78/ vial
- (v) Cartons Rs. 0.45for upto 30 ml pack, Rs. 0.60 for 60 ml pack, Rs. 0.75 for 100 ml pack

W LIQUID INJECTION IN AMPOULES

(1) WHITE AMPOULE PACKED IN TRAY

Ampoule size	Rs. per pack
Upto 1 ml	0.44
2 ml	0.71
3 ml	0.91
4 ml	1.12
5 ml	1.30
6- 10 ml	1.67
11- 20 ml	1.90
21- 25 ml	2.42

374067/05-3

(2) WHITE AMPOULE PACKED IN BLISTER

Ampoule size	Rs. per pack
Upto 1 ml	0.45
2 ml	0.73
3 ml	0.94
4 ml	1.15
5 ml	1.36
6- 10 ml	1.75
11- 20 ml	1.99
21- 25 ml	2.53

(3) AMBER AMPOULE PACKED IN TRAY

Ampoule size	Rs. per pack
Upto 1 ml	0.52
2 ml	0.74
3 ml	0.93
4 ml	1.13
5 ml	1.32
6- 10 ml	1.99
11- 20 ml	3.31
21- 25 ml	3.79

(4) AMBER AMPOULE PACKED IN BLISTER

Ampoule size	Rs. per pack
Upto 1 ml	0.53
2 ml	0.76
3 ml	0.95
4 ml	1.16
5 ml	1.38
6- 10 ml	2.08
11- 20 ml	3.45
21- 25 ml	3.96

X POWDER AND GRANULES IN SACCHET AND POUCH**(1) ALUMINIUM SACCHET/POUCH**

Tube/Pouch size	Rs. per pack
Upto 5gm	0.45
Above 5 gm	0.45+0.03/additional gm
	Over 5gm (1.20 for 30gm)

(2) OTHER THAN ALUMINIUM SACCHET / POUCH

Tube/Pouch size	Rs. per pack
Upto 5gm	0.38
Above 5 gm	0.38+0.02/additional gm
	Over 5gm (0.88 for 30gm)

Y DENTAL CARTRIDGE

Size	Rs. per pack
Upto 2 ml	1.40

Z TRANSFUSION SOLUTION PACKED IN GLASS BOTTLE, PLASTIC BOTTLE AND POUCHES

Size	Rs. per pack
Upto 100 ml	4.95

AA METERED DOSE INHALERS**Size****Rs. per pack**

(1) Upto 10 ml cane size with metallic Valve	30.08
(2) Upto 10 ml Cane size with non-metallic Valve	24.02
(3) Above 10 ml Cane size with metallic Valve	31.49
(4) Above 10 ml Cane size with non-metallic Valve	25.44

Special Note : Any item not covered in the above mentioned norms shall be examined and considered on case to case basis.

[PN/83/2005/F/F. No. 8(10)/2005-DP/NPPA-Div.-II]

A. K. PAL, Dy. Director

आदेश

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2005

का.आ. 1832(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का० आ० 637(अ) तारीख 4 सितम्बर, 1997 के साथ पठित औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय (राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण) के आदेश सं. का. आ. 913(अ) तारीख 11 अगस्त, 2004 का अधिक्रमण करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2 खंड 3, उपखंड(ii) में प्रकाशनार्थ, उक्त पैरा के प्रयोजन के लिये नीचे विनिर्दिष्ट संपरिवर्तन लागत, पैकिंग प्रभार और सामग्री की प्रसंस्करण क्षति के लिए नीचे विनिर्दिष्ट मानकों को निर्धारित करती है जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

क. संपरिवर्तन लागत**(क) सादी टिकियां (प्रति 1,000)****रुपये**

छोटी 100 मिग्रा. तक	6.60
मध्यम 101 मिग्रा. से 350 मिग्रा. तक	9.81
बड़ी 351 मिग्रा. से 600 मिग्रा. तक	15.45
अतिरिक्त बड़ी 601 मिग्रा. से 900 मिग्रा. तक	19.05
अतिरिक्त अतिरिक्त बड़ी 901 मिग्रा. से 1200 मिग्रा. तक	23.21
अतिरिक्त अतिरिक्त बड़ी 1200 मिग्रा. से ऊपर	1200 मिग्रा. से ऊपर रुपये 23.21+0.55
	प्रत्येक 100 मिग्रा. के लिए

(ख) लिपित टिकियां (प्रति 1,000)**रुपये**

छोटी 100 मिग्रा. तक	9.10
मध्यम 101 मिग्रा. से 350 मिग्रा. तक	13.32
बड़ी 351 मिग्रा. से 600 मिग्रा. तक	21.08
अतिरिक्त बड़ी 601 मिग्रा. से 900 मिग्रा. तक	26.61
अतिरिक्त अतिरिक्त बड़ी 901 मिग्रा. से 1200 मिग्रा. तक	33.43
अतिरिक्त अतिरिक्त बड़ी 1200 मिग्रा. से ऊपर	1200 मिग्रा. से ऊपर रुपये 33.43
	प्रत्येक 100 मिग्रा. के लिए

(ग) घुलनशील टिकियां (प्रति 1,000)		रुपये
छोटी 100 मिग्रा. तक		7.26
मध्यम 101 मिग्रा. से 350 मिग्रा. तक		10.79
बड़ी 351 मिग्रा. से 600 मिग्रा. तक		17.00
अतिरिक्त बड़ी 601 मिग्रा. से 900 मिग्रा. तक		20.96
अतिरिक्त अतिरिक्त बड़ी 901 मिग्रा. से 1200 मिग्रा. तक		25.53
अतिरिक्त अतिरिक्त बड़ी 1200 मिग्रा. से ऊपर	1200 मिग्रा. से ऊपर रुपये 25.53+0.57	
	प्रत्येक 100 मिग्रा. के लिए	
(घ) सरस (जेलेटिन) लिपित टिकियां (प्रति 1,000)		रुपये
600 मिग्रा. तक		60.45
601 मिग्रा. से 900 मिग्रा. तक		75.13
901 मिग्रा. से 1200 मिग्रा. तक		91.04
1200 मिग्रा. से ऊपर	1200 मिग्रा. से ऊपर रुपये 91.04+1.03	
	प्रत्येक 100 मिग्रा. के लिए	
(ङ.) बायलेयरड टिकियां (प्रति 1,000)		रुपये
छोटी 100 मिग्रा. तक		15.84
मध्यम 101 मिग्रा. से 350 मिग्रा. तक		22.78
बड़ी 351 मिग्रा. से 600 मिग्रा. तक		37.08
अतिरिक्त बड़ी 601 मिग्रा. से 900 मिग्रा. तक		45.72
अतिरिक्त अतिरिक्त बड़ी 901 मिग्रा. से 1200 मिग्रा. तक		55.70
अतिरिक्त अतिरिक्त बड़ी 1200 मिग्रा. से ऊपर	1200 मिग्रा. से ऊपर रुपये 55.70+1.15	
	प्रत्येक 100 मिग्रा. के लिए	
(च) दीर्घकालिक मोचन टिकियां (प्रति 1,000)		रुपये
छोटी 100 मिग्रा. तक		12.94
मध्यम 101 मिग्रा. से 350 मिग्रा. तक		16.11
बड़ी 351 मिग्रा. से 600 मिग्रा. तक		24.59
अतिरिक्त बड़ी 601 मिग्रा. से 900 मिग्रा. तक		36.88

अतिरिक्त अतिरिक्त बड़ी 901 मिग्रा. से 1200 मिग्रा. तक	38.56
अतिरिक्त अतिरिक्त बड़ी 1200 मिग्रा. से ऊपर	1200 मिग्रा. से ऊपर रुपये 38.56+0.85 प्रत्येक 100 मिग्रा. के लिए
(छ) चबाने वाली टिकियां (प्रति 1,000)	रुपये
छोटी 100 मिग्रा. तक	7.75
मध्यम 101 मिग्रा. से 350 मिग्रा. तक	11.21
बड़ी 351 मिग्रा. से 600 मिग्रा. तक	15.82
अतिरिक्त बड़ी 601 मिग्रा. से 900 मिग्रा. तक	21.24
अतिरिक्त अतिरिक्त बड़ी 901 मिग्रा. से 1200 मिग्रा. तक	25.24
अतिरिक्त अतिरिक्त बड़ी 1201 मिग्रा. से 1500 मिग्रा. तक	28.06
अतिरिक्त अतिरिक्त बड़ी 1500 मिग्रा. से ऊपर	1500 मिग्रा. से ऊपर रुपये 28.06+0.60 प्रत्येक 100 मिग्रा. के लिए
(ज) ऐफर्वेसन्ट टिकियां (प्रति 1,000)	रुपये
3600 मिग्रा. तक	148.00
3600 मिग्रा. से ऊपर	3600 मिग्रा. से ऊपर रुपये 148.00+1.05 प्रत्येक 100 मिग्रा. के लिए
(झ) इनलेय टिकियां (प्रति 1,000)	रुपये
छोटी 100 मिग्रा. तक	16.72
मध्यम 101 मिग्रा. से 350 मिग्रा. तक	23.42
बड़ी 351 मिग्रा. से 600 मिग्रा. तक	39.24
अतिरिक्त बड़ी 601 मिग्रा. से 900 मिग्रा. तक	46.98
अतिरिक्त अतिरिक्त बड़ी 901 मिग्रा. से 1200 मिग्रा. तक	58.95
अतिरिक्त अतिरिक्त बड़ी 1200 मिग्रा. से ऊपर	1200 मिग्रा. से ऊपर रुपये 58.95+1.30 प्रत्येक 100 मिग्रा. के लिए
(ञ) कैपसूल (प्रति 1,000)	रुपये
(i) नरम कैपसूल	
7.5 मिनिम तक	48.23
7.5 मिनिम से 14 मिनिम तक	62.18
14 मिनिम से 22/24 मिनिम तक	83.01
(ii) कठोर कैपसूल	42.77
(iii) दीर्घकालिक मोचन कैपसूल	92.87

(ट) द्रव (प्रति लिटर)	रुपये
शर्बत (सिरप) और एलिक्सिर	5.30
ससपेंसन, इमलसन और मॉल्ट	6.97
बाल रोग ड्राप्स	12.92
(ठ) मरहम और क्रीम (प्रति किलोग्राम)	रुपये
मरहम साधारण	16.56
मरहम रोगाणुरहित (स्ट्राइल)	31.05
(ड) एम्प्यूल्स (प्रति 100)	रुपये
1 मिलि लिटर तक	30.76
1 मिलि लिटर से 5 मिलि लिटर तक	37.65
5 मिलि लिटर से 10 मिलि लिटर तक	42.41
10 मिलि लिटर से 15 मिलि लिटर तक	49.13
15 मिलि लिटर से ऊपर	15 मिलि लिटर से ऊपर रुपये 49.13+0.68 प्रत्येक मिलि लिटर के लिए
(ढ) रोगाणुरहित द्रव शीशियां (वायल) (प्रति वायल) (आँख, कान और नाक की रोगाणुरहित ड्राप्स सहित)	रुपये
5 मिलि लिटर तक	0.96
5 मिलि लिटर से 15 मिलि लिटर तक	1.12
15 मिलि लिटर से 30 मिलि लिटर तक	1.42
30 मिलि लिटर से 100 मिलि लिटर तक	30 मिलि लिटर से ऊपर रुपये 1.42+0.13 प्रत्येक 10 मिलि लिटर के लिए
(ण) इन्ट्राविनस फ्ल्यूड (एफएफएस/बीएफएस)	रुपये
100 मिलि लिटर तक	1.78
100 मिलि लिटर से 500 मिलि लिटर तक	2.84
इन्ट्राविनस फ्ल्यूड (अन्य)	रुपये
100 मिलि लिटर तक	0.50
100 मिलि लिटर से 250 मिलि लिटर तक	1.25
250 मिलि लिटर से 500 मिलि लिटर तक	2.30
500 मिलि लिटर से 750 मिलि लिटर तक	2.70
750 मिलि लिटर से 1000 मिलि लिटर तक	4.40
1000 मिलि लिटर से 2000 मिलि लिटर तक	7.20
2000 मिलि लिटर से 3000 मिलि लिटर तक	11.25
(त) बिना रोगाणुरहित किए सूखा पाउडर और ग्रेन्यूल्य (प्रति किलोग्राम)	रुपये
सूखा पाउडर	9.66
ग्रेन्यूल्य	12.37
(थ) रोगाणुरहित सूखा पाउडर और ग्रेन्यूल्य (प्रति वायल)	रुपये
1 ग्राम तक	0.81
1 ग्राम से 5 ग्राम तक	1.02
5 ग्राम से ऊपर	1.30
(द) सूखा पाउडर लायोफाइलाइज्ड रोगाणुरहित (प्रति वायल)	रुपये
1 ग्राम तक	2.90
1 ग्राम से ऊपर	3.95

(घ) ऐरोसॉल / इन्हेलर

रुपये 2.04 प्रति पैक

ख. पैकिंग प्रभार

(1) रेनडम पैक की गई टिकियां

(सादी, लिपित, जेलेटिन और दीर्घकालिक मोघन)

रुपये, प्रति पैक

10 तक	0.24
11 से 30 तक	0.68
31 से 100 तक	0.93
101 से 250 तक	1.42
251 से 500 तक	1.80
501 से 1000 तक	2.24
1000 से ऊपर	1000 प्रति पैक टिकियों से ऊपर

2.24+(0.00026 x प्रति टिकियां)

(2) पत्ता (स्ट्रिप) (टिकिया/कैपसूल, सादी, लिपित, जेलेटिन और दीर्घकालिक मोघन)

रुपये, प्रति पैक

10 तक	0.14
10 से ऊपर	0.14+0.01

(प्रति टिकियां/कैपसूल)

(3) ऐफर्वेसन्ट टिकियां

रुपये, प्रति पैक

2 का पैक	0.12
4 का पैक	0.18
10 का पैक	0.45
50 का पैक	2.50

(4) रेनडम पैक किये गये कैपसूल

(कठोर, नरम और दीर्घकालिक मोघन सहित)

रुपये, प्रति पैक

4 तक	0.35
5 से 15 तक	0.58
16 से 25 तक	0.92
26 से 100 तक	1.20
100 से ऊपर	100 प्रति पैक कैपसूल से ऊपर

1.20+(0.0034 x प्रति कैपसूल)

(5) द्रव, शर्बत (सिरप), एलिक्सिर, ससपेंसन, इमलसन और मॉल्ट

रुपये, प्रति पैक

50 मिलि लिटर तक	0.70
51 मिलि लिटर से 150 मिलि लिटर तक	0.93
151 मिलि लिटर से 250 मिलि लिटर तक	1.16
251 मिलि लिटर से 500 मिलि लिटर तक	1.59
500 मिलि लिटर से ऊपर	500 प्रति मिलि लिटर पैक से ऊपर

1.59+(0.00085 x प्रति मिलि लिटर)

(6) मरहम और क्रीम (साधारण)

रुपये, प्रति पैक

50 ग्राम तक	0.46
51 ग्राम से 150 ग्राम तक	0.68
151 ग्राम से 250 ग्राम तक	0.85
251 ग्राम से 500 ग्राम तक	1.05
500 ग्राम से ऊपर	500 प्रति ग्राम पैक से ऊपर

1.05+(0.00005 x प्रति ग्राम)

(7) मरहम और क्रीम (रोगाणुरहित (स्ट्राइल))	रुपये, प्रति पैक
50 ग्राम तक	0.55
51 ग्राम से 150 ग्राम तक	0.82
151 ग्राम से 250 ग्राम तक	1.02
251 ग्राम से 500 ग्राम तक	1.26
500 ग्राम से ऊपर	500 प्रति ग्राम पैक से ऊपर 1.26+(0.00095 x प्रति ग्राम)
(8) एम्प्यूलस	रुपये, प्रति पैक
5 मिलि लिटर तक	0.25
5 मिलि लिटर से 10 मिलि लिटर तक	0.32
10 मिलि लिटर से ऊपर	0.40
(9) वायल (शीशियों) में द्रव इन्जेक्शन (आँख, कान और नाक के लिए ड्राप्स सहित)	रुपये, प्रति पैक
5 मिलि लिटर तक	0.45
5 मिलि लिटर से ऊपर	0.50
(10) वायल में रोगाणुरहित सूखा पाउडर (रोगाणुरहित लायोफाइलाइज्ड सहित)	रुपये, प्रति पैक
1 ग्राम तक	0.16
1 ग्राम से ऊपर	0.28
(11) बिना रोगाणुरहित किए सूखा पाउडर और ग्रेन्यूलस	रुपये, प्रति पैक
50 ग्राम तक	0.64
51 ग्राम से 100 ग्राम तक	0.85
101 ग्राम से 500 ग्राम तक	1.06
500 ग्राम से ऊपर	500 प्रति ग्राम पैक से ऊपर 1.06+(0.0003 x प्रति ग्राम)
(12) इन्ट्राविनस फिल्यूड (सभी प्रकार के)	रुपये
100 मिलि लिटर तक	0.30
101 मिलि लिटर से 250 मिलि लिटर तक	0.37
251 मिलि लिटर से 500 मिलि लिटर तक	0.60
501 मिलि लिटर से 750 मिलि लिटर तक	0.76
751 मिलि लिटर से 1000 मिलि लिटर तक	0.96
1001 मिलि लिटर से 2000 मिलि लिटर तक	2.03
2001 मिलि लिटर से 3000 मिलि लिटर तक	3.05

(13) ऐरोसॉल, इन्हेलर रुपये 2 10 प्रति पैक

नोट: केन्यूला/एप्लीकेटर और ड्रॉपर, जहां कहीं भी लागू हो, के लिए 10% अतिरिक्त पैकिंग प्रभार लागू हो।

ग. प्रसंस्करण में कच्ची सामग्री (संपरिवर्तन और पैकिंग में पैकिंग सामग्री के अतिरिक्त) की क्षति और पैकिंग में पैकिंग सामग्री की प्रसंस्करण क्षति

(1) कच्ची सामग्री

(i) टिकिया	
(क) सादी	2.5 प्रतिशत
(ख) लिपित	3.5 प्रतिशत
(ग) प्रेस कोटेड और मल्टिलेयरड	4 प्रतिशत
(घ) दीर्घकालिक मोशन	4 प्रतिशत
(ड.) ऐफर्वेसन्ट	6 प्रतिशत
(च) जेलेटिन लिपित	4 प्रतिशत
(छ) इनलेय	5 प्रतिशत
(ज) घुलनशील	3 प्रतिशत
(झ) चबाने वाली	3 प्रतिशत

(ii) कैपसूल	
(क) नरम	4 प्रतिशत
(ख) कठोर	2.5 प्रतिशत
(ग) दीर्घकालिक मोचन	4 प्रतिशत
(iii) द्रव	3 प्रतिशत
(iv) मरहम और क्रीम	3 प्रतिशत
(v) एम्पयूल्स	12 प्रतिशत
(vi) सूखा पाउडर	2.5 प्रतिशत
(vii) वायल	5 प्रतिशत
(viii) ऐरोसॉल, इन्हैलर	7.5 प्रतिशत
(ix) आई.वी. फिलयूड (बीएफएस)	15 प्रतिशत
(x) आई.वी. फिलयूड (अन्य)	10 प्रतिशत

(2) पैकिंग सामग्री

(i) टिकिया	
(क) सादी	2.5 प्रतिशत
(ख) लिपित	2.5 प्रतिशत
(ग) प्रेस कोटेड और मल्टिलेयरड	3 प्रतिशत
(घ) दीर्घकालिक मोचन	2 प्रतिशत
(ङ) ऐफर्वेसन्ट	5 प्रतिशत
(च) जेलेटिन लिपित	3 प्रतिशत
(छ) घुलनशील	3.5 प्रतिशत
(ii) कैपसूल	
(क) नरम	3 प्रतिशत
(ख) कठोर	3 प्रतिशत
(ग) दीर्घकालिक मोचन	3 प्रतिशत
(iii) द्रव	3 प्रतिशत
(iv) मरहम और क्रीम	2 प्रतिशत
(v) एम्पयूल्स	9 प्रतिशत
(vi) सूखा पाउडर	3 प्रतिशत
(vii) वायल	4 प्रतिशत
(viii) ऐरोसॉल, इन्हैलर	4 प्रतिशत
(ix) आई.वी. फिलयूड	4 प्रतिशत

ORDER

New Delhi, the 29th December, 2005

S.O. 1832(E).—In pursuance of paragraph 7 of the Drugs (Prices Control) Order, 1995, read with No. S.O. 637(E) dated the 4th September, 1997 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority, in supersession of the order of the Government of India in the Ministry Chemicals and Fertilizers (National Pharmaceutical Pricing Authority) No. S.O. 913(E) dated 11th August, 2004, published in the Gazette of India, extraordinary, part II, Section – 3, sub-section (ii), hereby prescribes the norms as prescribed below for Conversion Cost, Packing Charges and Process Loss of materials for the purpose of the said paragraph, which shall come into force with immediate effect:

A Conversion Cost

(a) Tablets plain (per 1000 Nos.)	Rs.
Small upto 100 mg	6.60
Medium 101 mg to 350 mg	9.81
Large 351 mg to 600 mg	15.45
Extra Large 601 mg to 900 mg	19.05
Extra Extra large 901 mg to 1200 mg	23.21
Extra Extra large above 1200 mg	Rs. 23.21+Rs. 0.55 for each 100 mg over 1200 mg
(b) Tablets Coated (per 1000 Nos.)	Rs.
Small upto 100 mg	9.10
Medium 101 mg to 350 mg	13.32
Large 351 mg to 600 mg	21.08
Extra Large 601 mg to 900 mg	26.61
Extra Extra large 901 mg to 1200 mg	33.43
Extra Extra large above 1200 mg	Rs. 33.43+Rs. 0.75 for each 100 mg over 1200 mg
(c) Tablets Dispersible (per 1000 Nos.)	Rs.
Small upto 100 mg	7.26
Medium 101 mg to 350 mg	10.79
Large 351 mg to 600 mg	17.00
Extra Large 601 mg to 900 mg	20.96
Extra Extra large 901 mg to 1200 mg	25.53
Extra Extra large above 1200 mg	Rs. 25.53+Rs. 0.57 for each 100 mg over 1200 mg
(d) Tablets Gelatin Coated (per 1000 Nos.)	Rs.
Upto 600 mg	60.45
Over 601 mg to 900 mg	75.13
Over 901 mg to 1200 mg	91.04
Above 1200 mg	Rs. 91.04+ Rs. 1.03 for each 100 mg over 1200 mg
(e) Tablets Bi-layered (per 1000 Nos.)	Rs.
Small upto 100 mg	15.84
Medium 101 mg to 350 mg	22.78
Large 351 mg to 600 mg	37.08
Extra Large 601 mg to 900 mg	45.72
Extra Extra large 901 mg to 1200 mg	55.70
Extra Extra large above 1200 mg	Rs. 55.70+Rs. 1.15 for each 100 mg over 1200 mg

(f) Tablets Sustained Release (per 1000 Nos)	Rs.
Small upto 100 mg	12.94
Medium 101 mg to 350 mg	16.11
Large 351 mg to 600 mg	24.59
Extra Large 601 mg to 900 mg	36.88
Extra Extra large 901 mg to 1200 mg	38.56
Extra Extra large above 1200 mg	Rs.38.56+Rs. 0.85 for each 100 mg over 1200 mg
(g) Tablets Chewable (per 1000 Nos)	Rs.
Small upto 100 mg	7.75
Medium 101 mg to 350 mg	11.21
Large 351 mg to 600 mg	15.82
Extra Large 601 mg to 900 mg	21.24
Extra Extra large 901 mg to 1200 mg	25.24
Extra Extra large 1201 mg to 1500 mg	28.06
Extra Extra large above 1500 mg	Rs.28.06+Rs. 0.60 for each 100 mg over 1500 mg
(h) Effervescent Tablets (per 1000 Nos.)	Rs.
upto 3600 mg	148.00
Above 3600 mg	Rs. 148.00+ Rs. 1.05 for each 100 mg over 3600 mg
(i) Tablets Inlay (per 1000 Nos)	Rs.
Small upto 100 mg	16.72
Medium 101 mg to 350 mg	23.42
Large 351 mg to 600 mg	39.24
Extra Large 601 mg to 900 mg	46.98
Extra Extra large 901 mg to 1200 mg	58.95
Extra Extra large above 1200 mg	Rs.58.95+Rs. 1.30 for each 100 mg over 1200 mg
(j) Capsules (per 1000 Nos)	Rs.
(i) Soft capsules	48.23
Upto 7.5 minim	62.18
Over 7.5 and upto 14 minim	83.01
Over 14 and upto 22 / 24 minim	
(ii) Hard capsules	42.77
(iii) Sustained Release capsules	92.87
(k) Liquids (per litre)	Rs.
Syrup and Elixirs	5.30
Suspension, emulsions & Malts	6.97
Pediatric Drops	12.92
(l) Ointments and Creams (per kg.)	Rs.
Ointment Ordinary	16.56
Ointment Sterile	31.05
(m) Ampoules (per 100 Nos.)	Rs.
Upto 1 ml.	30.76
Over 1 ml. Upto 5 ml.	37.65
Over 5 ml. Upto 10 ml.	42.41
Over 10 ml to 15 ml	49.13
Over 15 ml.	Rs. 49.13 + Rs. 0.68 for each ml over 15 ml
(n) Sterile Liquid Vials (per vial) (including sterile eye, ear and nasal drops)	Rs.
Upto 5 ml.	0.96
Over 5 ml. Upto 15 ml.	1.12
Over 15 ml. Upto 30 ml.	1.42
Over 30 ml. Upto 100 ml.	Rs. 1.42+ Rs. 0.13 for each 10 ml over 30 ml
(o) (i) Intravenous Fluids (FFS/BFS.)	Rs.
Upto 100 ml	1.78
Over 100ml Upto 500 ml	2.84
(ii) Intravenous Fluids (Others)	Rs.
Upto 100 ml	0.50
101 ml to 250 ml	1.25
251 ml to 500 ml	2.30

501 ml to 750ml	2.70
751 ml to 1000 ml	4.40
1001 ml to 2000 ml	7.20
2001 ml to 3000 ml	11.25

(p) Non-sterile Dry Powder and Granules (per kg.)	Rs.
Dry Powder	9.66
Granules	12.37

(q) Sterile Dry Powder & Granules (per vial)	Rs.
Upto 1 gm	0.81
Over 1 gm upto 5 gm.	1.02
Over 5 gms.	1.30

(r) Sterile Dry Powder Lyophilised (per vial)	Rs.
Upto 1 gm	2.90
Over 1 gms.	3.95

(s) Aerosol / Inhalers	Rs. 2.04 per pack
------------------------	-------------------

B Packing Charges

(1) Tablets packed in Random (Plain, coated and sustained release)	Rs. per pack
Upto 10	0.24
11 to 30	0.68
31 to 100	0.93
101 to 250	1.42
251 to 500	1.80
501 to 1000	2.24
Over 1000	Rs. 2.24+ (Rs. 0.00026 x number of tablets over 1000)
(2) Strips (Tablets/Capsules, Plain, coated and sustained release)	Rs. per pack
Upto 10	0.14
Over 10	Rs. 0.14 + Rs. 0.01 for each tablet / capsule over 10
(3) Effervescent Tablets	Rs.
2's pack	0.12
4's pack	0.18
10's pack	0.45
50's pack	2.50
(4) Capsules packed in Random (including hard, soft and sustained release)	Rs. per pack
Upto 4	0.35
5 to 15	0.58
16 to 25	0.92
26 to 100	1.20
Over 100	Rs. 1.20 + (Rs. 0.0034 x number of capsules over 100)
(5) Liquids, Syrups, Elixirs, Suspensions, Emulsions & Malts	Rs. per pack
Upto 50 ml.	0.70
51 ml to 150 ml.	0.93
151 ml to 250 ml.	1.16
251 ml to 500 ml.	1.59
Over 500 ml.	Rs. 1.59 + (Rs. 0.00085 x number of ml over 500 ml)
(6) Ointments & Creams (Ordinary)	Rs. per pack
Upto 50 gms.	0.46
51 to 150 gms.	0.68
151 to 250 gms.	0.85
251 to 500 gms.	1.05
Over 500 gms.	Rs. 1.05+ (Rs. 0.00085 x number of gms over 500 gms)

(7) Ointments & Creams (Sterile)	Rs. per pack
Upto 50 gms.	0.55
51 to 150 gms.	0.82
151 to 250 gms.	1.02
251 to 500 gms.	1.26
Over 500 gms.	Rs. 1.26 + (Rs. 0.00095 x number of gms over 500 gms)
(8) Ampoules	Rs. per pack
Upto 5 ml.	0.25
Over 5 ml upto 15 ml	0.32
Over 15 ml	0.40
(9) Liquid Injections in vials (including sterile eye, ear and nasal drops)	Rs. per pack
Upto 5 ml.	0.45
Over 5 ml.	0.50
(10) Sterile Dry Powders (including sterile Lyophilised) in vials	Rs. per pack
Upto 1 gm.	0.16
Over 1 gm.	0.28
(11) Non-sterile powders and Granules	Rs. per pack
Upto 50 gms.	0.64
51 gms to 100 gms.	0.85
101 gms to 500 gms.	1.06
Over 500 gms.	Rs. 1.06 + (Rs. 0.0003 x number of gms over 500 gms)
(12) Intravenous Fluids (All Types)	Rs. per pack
Upto 100 ml.	0.30
101 ml to 250 ml.	0.37
251 ml to 500 ml.	0.60
501 ml to 750 ml.	0.78
751 ml to 1000 ml.	0.96
1001 ml to 2000 ml.	2.03
2001 ml to 3000 ml	3.05
(13) Aerosol Inhalers	Rs. 2.10 per pack

Note: Additional 10% of Packing Charges shall be applicable for Canulae / Applicator and Droppers, wherever provided.

C Process Loss of raw materials (other than packing materials in conversion and packing) and process loss of packing materials in packaging:

(1) Raw Materials

(i) Tablets

(a) Plain	2.5 per cent
(b) Coated	3.5 per cent
(c) Press coated and multilayered	4 per cent
(d) Sustained release	4 per cent
(e) Effervescent	6 per cent
(f) Gelatin Coated	4 per cent
(g) Inlay	5 per cent
(h) Dispersible	3 per cent
(i) Chewable	3 per cent

(ii) Capsules	
(a) Soft	4 per cent
(b) Hard	2.5 per cent
(c) Sustained release	4 per cent
(iii) Liquids	3 per cent
(iv) Ointments and Creams	3 per cent
(v) Ampoules	12 per cent
(vi) Dry Powders	2.5 per cent
(vii) Vials	5 per cent
(viii) Aerosol Inhalers	7.5 per cent
(ix) I.V. Fluids (BFS)	15 per cent
(x) I.V. Fluids (Others)	10 per cent
(2) Packing Materials	
(i) Tablets	
(a) Plain	2.5 per cent
(b) Coated	2.5 per cent
(c) Press coated and multilayered	3 per cent
(d) Sustained release	2 per cent
(e) Effervescent	5 per cent
(f) Gelatin Coated	3 per cent
(g) Dispersible	3.5 per cent
(ii) Capsules	
(a) Soft	3 per cent
(b) Hard	3 per cent
(c) Sustained Release	3 per cent
(iii) Liquids	3 per cent
(iv) Ointments and Creams	2 per cent
(v) Ampoules	9 per cent
(vi) Dry Powders	3 per cent
(vii) Vials	4 per cent
(viii) Aerosol Inhalers	4 per cent
(viii) I.V. Fluids	4 per cent

[PN/83/2005/F/F. No. 8(10)/2005-DP/NPPA-Div.-II]

A. K. PAL, Dy. Director